



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1432]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 30, 2006/अग्राहायण 9, 1928

No. 1432]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2006/AGRAHAYANA 9, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2006

का.आ. 2045(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बंगलौर शहरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के बंगलौर-होसूर सेक्शन के 8.500 कि.मी. से 33.200 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, के. आर. सर्कल, लोक निर्माण विभाग कम्पाउण्ड, बंगलौर, कर्नाटक को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बंगलौर शहरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 8/500 कि.मी. से 33/200 कि.मी. तक (बंगलौर - होसूर सेक्शन) पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सर्वेक्षण संख्या/ खाता संख्या/ प्लॉट संख्या	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बंगलौर शहरी	बंगलौर दक्षिण	(1) रुपेना अग्रहारा	शुष्क	निजी	31/4	51
				शुष्क	निजी	32/1	101.00
				शुष्क	निजी	32/2	76
							228
		(2) बोम्मनाहल्ली	ग्रामथाना		निजी	ग्रावेल पिट	303
				शुष्क	निजी	13/1	404
				शुष्क	निजी	15	505
				एन ए के	निजी	52/5	101
		(3) सिगासान्द्रा		शुष्क	निजी	53/1ए	202
				एन ए के	निजी	53/1बि	202
							1717
							404
		(4) कोनप्पना अग्रहारा		शुष्क	निजी	6/1	101
				शुष्क	निजी	6/2	2226
				शुष्क	निजी	104/3	101
				शुष्क	निजी	104/4	2832
		(4) कोनप्पना अग्रहारा		शुष्क	निजी	28/1	606
							606
							202
				शुष्क	निजी	19/2	404
		(2) इडलबेले		शुष्क	निजी	19/3	505
							1111
				शुष्क	निजी	30/1ए	202
				शुष्क	निजी	30/1बि	404
		(2) इडलबेले		शुष्क	निजी	30/2	51
				शुष्क	निजी	31	808
							1465
						कुल	7,959.00

[फा. सं. भारावाप्रा/जीएम/(एमसी-III)/बीएनजी-एचओएस/एलए/विविध]

प्रभाकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION****New Delhi, the 30th November, 2006**

**S.O. 1430(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening), maintenance, management and operation of National Highway No. 7 on the stretch of land from Km 8.500 to Km 33.200 Bangalore - Hosur Section in District Bangalore Urban, in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Special Land Acquisition Officer, National Highways, K.R.Circle, Public Works Department Compound, Bangalore, Karnataka, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested persons, at the office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 8.500 to Km. 33.200 (Bangalore - Hosur section) of National Highway No. 7 in Bangalore Urban District in the State of Karnataka.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Type of land	Nature of land	Survey number/ House number	Area of Land (in square Meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangalore Urban	1 Bangalore (South)	(1) Rupena Agrahara	Dry	Private	31/4	51
				Dry	Private	32/1	101
				Dry	Private	32/2	76
			Total				228.00
			(2) Bommanahalli	Gramathana	Private	Graval pit	303
				Dry	Private	13/1	404
				Dry	Private	15	505
				NAK	Private	52/5	101
				Dry	Private	53/1A	202
				NAK	Private	53/1B	202
			Total				1,717
			(3) Singasandra	Dry	Private	6/1	404
				Dry	Private	6/2	101
				Dry	Private	104/3	2,226
				Dry	Private	104/4	101
			Total				2,832

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bangalore Urban		(4) Konappana agrahara	Dry	Private	28/1	606
			Total				606
2		2 Anekal Taluk	(1) Veerasandra	KIADB	KIADB	Palya	202
				Dry	Private	19/2	404
				Dry	Private	19/3	505
			Total				1,111
			(2) Indlabele	Dry	Private	30/1A	202
				Dry	Private	30/1B	404
				Dry	Private	30/2	51
				Dry	Private	31	808
			Total				1465
			Total				7,959.00

[F. No. NHA/GM/(MC-III)/BNG-HOS/LA/Misc.]

PRABHAKAR, Dy. Secy.,